


आप जितनी जल्दी रिटायरमेंट की योजना बनाएँगे, उतना ही अधिक आप उसका आनंद ले पाएँगे!



रिटायरमेंट आपके जीवन की एक नई शुरुआत है, जब आप अपनी पसंद के कामों को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास पर्याप्त काम है, आपको पहले से ही योजना बनाने की जरूरत होती है। शुरुआती चरण से ही म्यूचुअल फंड में व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) में निवेश करके, आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और लंबी अवधि के लिए धन संचय जारी रखने का लक्ष्य बना सकते हैं।



जल्दी शुरू करें

५ साल की देरी से आपको उसी लक्ष्य राशि तक पहुँचने के लिए मासिक किस्तों में दोगुना भुगतान करना पड़ता है, इसलिए जितनी जल्दी आप बचत करना शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा लंबी अवधि का लाभ होगा।



मुद्रास्फीति को मात देने का लक्ष्य

जब आप विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करते हैं, तो लंबी अवधि निवेश चुनें जो मुद्रास्फीति को मात देने में मदद कर सकें, जैसे इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड।



अपनी जोखिम प्रोफाइल को जानें

अपनी जोखिम प्रोफाइल के अनुसार निवेश करना एक अच्छा तरीका है; यह सुनिश्चित करता है कि आपका निवेश आपकी अपेक्षाओं और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करता है।



स्थिर आय के लिए योजना बनाएँ

सही योजना के साथ, आप नियमित भुगतान का लक्ष्य रख सकते हैं जो व्यवस्थित निकासी योजना (एसडब्ल्यूपी) के माध्यम से आपके दैनिक खर्चों का ख्याल रख सकता है।



टॉप अप आपके निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं

एसआईपी टॉप अप का उपयोग करने से आपके निवेश को समय-समय पर बढ़ावा मिल सकता है, जिससे आपको कम समय सीमा में अपने लक्ष्य राशि तक पहुँचने में मदद मिलेगी।



चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाएँ

जब आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहते हैं, तो आप अपने निवेश पर चक्रवृद्धि प्रभाव के कारण अपने पैसे को बढ़ने का समय देते हैं।

एचएसबीसी म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशकों को शिक्षित और जागरूक करने की पहल

वन टाइम नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रक्रिया, सेबी स्कोर (<https://www.scores.gov.in>) वन-टाइम नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रक्रिया, सेबी स्कोर (<https://scores.sebi.gov.in/scores-home>) सहित शिकायत निवारण प्रक्रिया। निवेशकों को केवल पंजीकृत म्यूचुअल फंड के साथ ही लेन-देन करना चाहिए, जिन्हें सेबी की वेबसाइट पर मध्यस्थ/बाजार अवसंरचना संस्थान (<https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html>) के अंतर्गत सत्यापित किया जाना चाहिए। एचएसबीसी म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई सभी 'निवेशक शिक्षा और जागरूकता पहल' के बारे में जानकारी के लिए निवेशक एचएसबीसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर 'निवेशक शिक्षा' पर सेक्शन देख सकते हैं।

केवल भारतीय अधिकार क्षेत्र में वितरण के लिए उद्देश्यित दस्तावेज़, भारत के बाहर या एनआरआई के लिए नहीं है। यदि भारत के बाहर किसी के द्वारा इस जानकारी का उपयोग किया जाता है तो एचएसबीसी एमएफ किसी भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए, वेबसाइट देखें।

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, योजना से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें।